

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 4—अप्रैल 10, 2015 (चैत्र 14, 1937)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 4—APRIL 10, 2015 (CHAITRA 14, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2015

सं. ए-12025/09/2014-प्रशा. I—राष्ट्रपति, डॉ. ए. मनोहर, नियमित उप सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) और वर्तमान में संयुक्त सलाहकार (तदर्थ), योजना आयोग को नियमित पदोन्नति के आधार पर 1 जनवरी, 2015 (पूर्वाहन) से वेतन बैंड : 4, रु. 37,400—67,000/— (+) ग्रेड पे रु. 8,700/— में योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (श्रम एवं रोजगार) नियुक्त करते हैं।

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशा. I)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

सं. एफ.6(2041)/2008-प्रशा. I—एफ आर-56 (के) (1) प्रावधान के तहत सुश्री रेणु सोबती, संयुक्त सलाहकार (तदर्थ), योजना आयोग, दिनांक 1 जनवरी, 2015 (पूर्वाहन) से सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रही हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. एफ.6(2080)/2009-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री चन्दन कुमार साहा, संयुक्त सलाहकार (सी आई), योजना आयोग, दिनांक 31.12.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

नीति आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2015

सं. एफ.6(2080)/2009-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री चन्दन कुमार साहा, संयुक्त सलाहकार (सीएल), योजना आयोग, (वर्तमान में नीति आयोग), दिनांक 31.12.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। यह योजना आयोग के दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की पूर्व जारी समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में है।

एस. मुखर्जी, निदेशक

दिनांक 22 जनवरी 2015

सं. ए-12025/09/2014-प्रशा.1—राष्ट्रपति, डॉ. ए. मनोहर, नियमित उप सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) और वर्तमान में संयुक्त सलाहकार (तदर्थ), नीति आयोग (पूर्व योजना आयोग) को 1 जनवरी, 2015 (पूर्वाहन) से नियमित पदोन्नति के आधार पर वेतन बैंड : 4, रु. 37,400—67,000/— (+) ग्रेड पे रु. 8,700/— में नीति आयोग में संयुक्त सलाहकार (श्रम एवं रोजगार) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. योजना आयोग के नाम से पहले दिनांक 1.1.2015 को जारी समसंख्यक पूर्व अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशा. 1)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 जनवरी 2015

सं. ए-12025/12/2013-प्रशा.1—योजना आयोग की दिनांक 30 जनवरी, 2014 तथा 24 फरवरी, 2014 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री एम. विजयकुमार, तदर्थ आधार पर संयुक्त सलाहकार (वीएसआई) के रूप में स्थानापन्न, डॉ. ए. ए. सोनकूसेरे, तदर्थ आधार पर संयुक्त सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान) के रूप में स्थानापन्न, तथा श्री राजनाथ राम, तदर्थ आधार पर संयुक्त सलाहकार (आईईएम) के रूप में स्थानापन्न को क्रमशः दिनांक 23.1.2015 (पूर्वाहन), 27.1.2015 (पूर्वाहन) तथा 17.2.2015 (पूर्वाहन) से उनके उपसलाहकार (परियोजना मूल्यांकन), उपसलाहकार (ऊर्जा नीति), तथा उपसलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) के नियमित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 21 जनवरी 2015

सं. एफ.6(2246)/2015-प्रशा.1—डॉ. अरविंद पनगठिया ने दिनांक 13.1.2015 (पूर्वाहन) से नीति आयोग में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 23 जनवरी 2015

सं. एफ.6(2247)/2015-प्रशा.1—डॉ. बिबेक देबरॉय ने दिनांक 21.1.2015 (पूर्वाहन) से नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 29 जनवरी 2015

सं. एफ.6(2070)/2008-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, सुश्री रुही सिद्दीकी, उप सलाहकार नीति आयोग को 31.01.2015 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2015

सं. ए-12025/05/2013-प्रशा. I—नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) की दिनांक 29 अगस्त 2013 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में डॉ. आर. पी. सिंह, तदर्थ आधार पर उपसलाहकार (शिक्षा) के रूप में स्थानापन्न तथा श्री आर. सी. मीना, तदर्थ आधार पर उपसलाहकार (सामाजिक आयोजना) के रूप में स्थानापन्न दिनांक 22.08.2014 (अपराहन) से उनके नियमित पद क्रमशः वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक आयोजना) तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) पर प्रत्यावर्तित हो गए हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. एफ.6(2248)/2015-प्रशा. I—डॉ. वी. के. सारस्वत ने 30.01.2015 (पूर्वाहन) से नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 मार्च 2015

सं. ए-31018/1/2009-प्रशा. I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2013-सीएस. I (यू) दिनांक 4 फरवरी 2015 के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2012 की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति सीएसएस के श्री नवीन कुमार दूबे, अवर सचिव (तदर्थ) (सीएसएस सं. 8346) को सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय यूएसएसएल वर्ष 2012 के ग्रेड-I (अवर सचिव) में दिनांक 4 फरवरी, 2015 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

सुंदर सिंह, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 मार्च 2015

सं. ए-19/जी-ए/96—श्री आशीष श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (म.प्र. : 92) जिनकी सेवाएं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सन्दर्भ सं. 14/1/2009-ईओ (एसएम-I) दिनांक 13.03.2009 तथा सं. 14/3/2012-ईओ (एसएम-I) दिनांक 01.08.2012 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निपटान पर रखी गई थी, को उनकी कार्यावधि पूर्ण होने पर, दिनांक 18.03.2015 (अपराहन) से, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में महानिदेशक (प्रशिक्षण) के पद से एतद्द्वारा, कार्यमुक्त किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त, श्री आशीष श्रीवास्तव को 19.03.2015 से 18.05.2015 तक 61 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश का लाभ लेने के उपरान्त वे अपने मूल संवर्ग को रिपोर्ट करेंगे।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

दिनांक 17 मार्च 2015

सं. ए-19/जी-ए/102—श्री सलेक चन्द, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, जिनकी सेवाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की सन्दर्भ सं. ए-19011/4/97-प्रशा. I (पार्ट), दिनांक 02.03.2010 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निपटान पर रखी गई थी, को उनकी कार्यावधि पूर्ण होने पर, दिनांक 17.03.2015 (अपराहन) से, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद से अपने मूल कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए एतद्द्वारा, कार्यमुक्त किया जाता है।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2015

सं. ए-38012/3/2014-प्रशा-I (वि.वि.)—विदेशी मुद्रा अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली में 20 फरवरी, 2015 की पूर्वाहन से रु. 67,000—79,000/- के वेतनमान में सदस्य के पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी श्रीमती शारदा जैन को दिनांक 20 फरवरी, 2015 की पूर्वाहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त समझा जाता है।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

सं. ए-32013/7/2014-प्रशा. I (वि.वि.)—विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति सहर्ष विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड—III) श्री उदय कुमार को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में नियमित आधार पर अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड—II) के पद पर रु. 37,400—67,000/— के वेतन बैंड-4 और रु. 8,700/— के ग्रेड वेतन में दिनांक 3 मार्च, 2015 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड—II) के पद पर अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 4 मार्च 2015

सं. ए-32013/8/2014-प्रशा. I (वि.वि.)—विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति सहर्ष विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड—IV) श्रीमती अकाली वी. कोंगे को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में नियमित आधार पर उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड—III) के पद पर रु. 15,600—39,1000/— के वेतन बैंड-3 और रु. 7,600/— के ग्रेड वेतन में दिनांक 4 मार्च, 2015 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड—III) के पद पर अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 5 मार्च 2015

सं. ए-12026/8/1995-प्रशा. I (वि.वि.)—राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 24.02.2015 के आदेश सं. 5/3/2014-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में तथा रु. 15,600—39,1000/— के वेतन बैंड-3 और रु. 7,600/— के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में उप निदेशक (रा.भा.) श्री कंवर सिंह को दिनांक 3 मार्च, 2015 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय की नामावली में संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 10 मार्च 2015

सं. ए-12023/1/2003-प्रशा. I (वि.वि.)—पार्ट—राष्ट्रपति सहर्ष विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में अधीक्षक (विधि) श्री बी.एन.एस.वी.एस.के. बंगारराजू को विधि एवं न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में तदर्थ आधार पर सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड—IV) के पद पर रु. 15,600—39,1000/— के वेतन बैंड और रु. 6,600/— के ग्रेड वेतन में दिनांक 10 मार्च, 2015 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति, उपर्युक्त अधिकारी को सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड—IV) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मार्च 2015

सं. I-18011/03/2015-आई.पी.एस.4—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारियों के नाम	स्थायी किये जाने की तिथि
1.	श्री दीपक गौरी, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	29.08.2013
2.	श्री दीपक यादव, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	29.08.2013

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारियों के नाम	स्थायी किये जाने की तिथि
3.	श्री धनश्याम बंसल, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	29.08.2013
4.	श्री इंगित प्रताप सिंह, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	29.08.2013
5.	श्री प्रणव तायल, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	19.12.2013
6.	श्री संजय कुमार सेन, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	19.12.2013
7.	सुश्री उर्वीजा गोयल, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	29.08.2013
8.	सुश्री उषा रंगनानी, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	29.08.2013

धीरज कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-4)

दिनांक 23 मार्च 2015

सं. I-18011/03/2015-आई.पी.एस.4—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारियों के नाम	स्थायी किये जाने की तिथि
1.	सुश्री गुगुलॉथ अमरूथा, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	29.08.2014
2.	श्री शंकर चौधरी, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	21.11.2014
3.	श्री परविन्दर सिंह, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	27.07.2013
4.	श्री मनोज सी., भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2011)	29.08.2014

धीरज कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-4)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2015

सं. ए-32015/8/2006-संवर्ग(प्रशा.IV)—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/7/2013 सीएस. I(एस) अनुसार राष्ट्रपति, संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 2012 एवं 2013 के आधार पर श्री विमल कुमार गुप्ता को दिनांक 02.03.2015 पूर्वाह्न से कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) का अनुभाग अधिकारी समूह-ख नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयों के मुकदमों तथा किसी भी संबद्ध मामले में किसी सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के परिणामों के अधीन होगी :—

- (i) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री शांति लाल बौरासी तथा अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका (सिविल) सं. 5080/2014
- (ii) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री एम. आर. मीणा तथा अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका (सिविल) सं. 5793/2014
- (iii) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री राजीव आर एवं अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका (सिविल) सं. 6468/2014

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2015

सं. ए-20012/1/2009-एडी. II—संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 27.01.2015 के का.ज्ञा. सं. ए-12025/2/2013-सीएस के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक श्री आशुतोष मिश्र जो इस समय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त के आधार पर अनुभाग अधिकारी के

पद पर हैं, को 9,300—34,800/— (पीबी-2) के वेतन बैंड + 4,800/—रु. (ग्रेड वेतन) में दिनांक 26.12.2014 (अपराहन) से अर्थात् वर्ष 2012 की चयन सूची के लिए अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तारीख से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

सं. ए-33025/1/2014-एडी.II/भाग—राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के प्रधान निजी सचिव श्री संजय कुमार शर्मा को 22 जनवरी, 2015 के पूर्वाहन से 15,600—39,100/— (पीबी-3) के वेतन बैंड + 6,600/—रु. (ग्रेड वेतन) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में व्यय प्रबंधन आयोग में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति आयोग के साथ सह-अवसानी अथवा अगल आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली-110107, दिनांक 27 फरवरी 2015

सं. ए-12023/2/2012-स्था.1—राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पर डॉ. सतीश चन्द्र, उप निदेशक (राजभाषा) की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 9.2.2013 से 23.12.2013 तक की अवधि तक बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और इसके आधार पर संबंधित अधिकारी को इस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता अथवा उच्च ग्रेड में पदोन्नति करने के लिए किसी प्रकार का अधिकारी प्राप्त नहीं होगा।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2015

सं. ए-12022/01/2012-स्थापना.1—राष्ट्रपति, श्री राजीव अग्रवाल, आईएएस (उ.प्र. : 93) को 4 मार्च, 2015 के पूर्वाहन से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 9 मार्च 2015

सं. ए-12023/2/2012-स्थापना.1—राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन में राजभाषा सेवा के नियमित उप-निदेशक श्री ईश्वर सिंह, को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में 7,600/— ग्रेड पे में वेतन संरचना पीबी-3 (15,600—39,100/— रुपए) में तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के रूप में दिनांक 2.3.2015 से 1.3.2016 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक नियुक्ति करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है तथा इससे अधिकारी को इस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता या उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12023/07/2012-स्था.1—राष्ट्रपति, सीएसएस (सीएसएल सं. 8652) के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री डी. एस. श्रीनिवासन को 20 फरवरी, 2015 से 31.05.2015 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पद के भरने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएस का अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे अधिकारी को अनिश्चित समय तक इस ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा यह नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 20 फरवरी, 2015 के का.ज्ञा. सं. 5/3/2015-सीएस-I (यू) में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2015

सं. ए-12025/2/2011-एस ए—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री अनूप कुमार कनौजिया को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में 15,600/— रुपए

39,100/- रुपए के वेतनमान (पी बी-3) तथा 6,600/- रुपए के ग्रेड में सीधी भर्ती आधार पर सहायक प्रोफेसर, शर्करा इंजीनियरी, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित पद पर दिनांक 15.9.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

जितेंद्र जुयाल, अवर सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2015

सं. ए-12025/11/2013-एस ए-संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री राकेश शुक्ला को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में 15,600—39,100/- रुपए के वेतनमान (पी बी-3) तथा 6,600/- रुपए के ग्रेड में सीधी भर्ती आधार पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित पद पर दिनांक 31.12.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

जितेंद्र जुयाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2015

सं. टीफसी/4/2014—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 2015 के पत्र संत्र 9/1/2014-ई.ओ.(एम एम-II) के अनुसरण में राष्ट्रपति के द्वारा श्री गणेश ए. बकाडे (आई टी एस 1998) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) में निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) के पद पर वेतन बैंड-4 अर्थात् 37,000—67,000/- रुपए जमा 8,700/- रुपए ग्रेड वेतन में दिनांक 3 मार्च, 2015 की पूर्वाह्न से पांच वर्ष तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

राम चन्द्र, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अप्रैल 2014

सं. 17013/19/2013-आईएफएस-II—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप विनियमों (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती नियम), 1966 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2012 की चयन सूची में उनका नाम शामिल होने के आधार पर भारतीय वन सेवा के सिक्किम राज्य वन सेवा के निम्नलिखित एक (1) अधिकारी को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का सिक्किम संवर्ग आवंटित करते हैं।

चयन सूची-2012

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
श्री उदय गुरंग	14.03.1969

एस. डी तिवारी, अवर सचिव

दिनांक 12 मई 2014

सं. 17013/10/2013-आईएफएस-II—भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप विनियम 3 में शामिल उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2012 की चयन सूची हेतु भारतीय वन सेवा के असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग के असम सेगमेंट के राज्य वन सेवा से प्रोन्नति हेतु चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग के असम सेगमेंट में उपलब्ध प्रोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए असम राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल हैं :—

चयन सूची-2012

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	महेश श्री कलिता	01.03.1958
2.	मो. जार्जज अहमद	09.08.1960
3.	स्वप्न कु. सील शर्मा	01.03.1958
4.	जतिन्दर शर्मा	11.03.1963

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
*5.	मो. अप्ताबुद्दीन अहमद	01.11.1958
6.	अमल च. शर्मा	01.11.1961
7.	मो. सलमान उद्दीन चौधरी	24.12.1962

*राज्य सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई और निष्ठा प्रमाण—पत्र देने के अध्यक्षीन क्रम सं. 3 पर दिए गए अधिकारी का नाम चयन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

एस. डी तिवारी, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2015

सं. ए-38016/09/2014-स्थापना-III—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की अधिकारी डॉ. (श्रीमती) मनीषा वर्मा, उपायुक्त दिनांक 28.02.2015 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गयी हैं।

अवधेश कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. ए-38016/11/2014-स्थापना-III—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत श्री के. के. बंसल, उप निदेशक दिनांक 28.02.2015 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

अवधेश कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. ए-38016/10/2014-स्थापना-III—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की अधिकारी डॉ. (श्रीमती) शारदा वर्मा, निदेशक (सीजीएचएस) दिनांक 28.02.2015 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गयी हैं।

अवधेश कुमार सिंह, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जून 2014

सं. 02/2014 फा. सं. ए-32014/2/2013-प्रशासन—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/8/2013-सीएस. II (ए) द्वारा वर्ष 2012 के लिए निजी सचिव ग्रेड की प्रवर सूची में नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने श्री कंवल कुमार करवल को 26 मई, 2014 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-2 (9,300—34,800/- रु.) + 4,800/- रु. (26 अप्रैल, 2013 को ग्रेड वेतन 5,400/- में एम.ए.सी.पी. दी गई है) ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर निजी सचिव (एसएल सं. 07) के रूप में नियुक्त किया है।

आई. बी. लेंका, अवर सचिव

दिनांक 19 जनवरी 2015

सं. 04/2015 पीएफ/जे/36-प्रशासन—राष्ट्रपति ने श्री जय प्रकाश सिंह, आईपीएस (एचपी : 2000) को 09 जनवरी, 2015 अपराह्न से अगले आदेश तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में वेतन बैंड-4, 37,400—67,000/- रु. + 8,700/- रु. ग्रेड वेतन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

आई. बी. लेंका, अवर सचिव

दिनांक 21 जनवरी 2015

सं. 03/2015 ए-42011/59/2014-प्रशासन— राष्ट्रपति ने श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस (एमटी : 1994) को 07 जनवरी, 2015 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में वेतन बैंड 37,400—67,000/- रु. (वेतन बैंड-4) + 10,000/- रु. ग्रेड वेतन में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

आई. बी. लेंका, अवर सचिव

दिनांक 27 जनवरी 2015

सं. 02/2015 फा.सं. ए-32014/2/2013-प्रशासन—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.12.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/7/2013-सीएस. I (एस) द्वारा वर्ष 2012 और 2013 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची में नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तारीख से अगले आदेश तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-2 (9,300—34800/- रु.) + 4,800/- रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं.	अनुभाग अधिकारी का नाम	रैंक/प्रवर सूची वर्ष	मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	पंकज धमीजा	40/2012	30.12.2014
2.	नवीन रावत	28/2012	30.12.2014
3.	अनीता सुनील कुमार	277/2012	31.12.2014
4.	सुधीर कुमार गुप्ता	81/2013	30.12.2014
5.	तरुण पारीक	112/2013	31.12.2014

आई. बी. लेंका, अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2015

सं. 05/2015 सं. ए-11013/2/2014-प्रशासन—राष्ट्रपति ने श्री कुन्दन कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 2004) को 04.02.2015 (अपराहन) से माननीय मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर या अगले आदेश तक या जब तक वह माननीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते हैं, जो भी पहले हो, (वेतन बैंड पीबी-3, 15,600—39,100/- रु. 7,600/- रु. ग्रेड वेतन) में उप सचिव के स्तर पर कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजीव प्रताप रूडी) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

आई. बी. लेंका, अवर सचिव

दिनांक 12 फरवरी 2015

सं. 06/2015 ए-12032/2/2012-प्रशासन—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के डॉ. बी. के. रे, अवर सचिव (सीएसएस सं. 5461) को 02 फरवरी, 2015 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सीएसएस के उप सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

आई. बी. लेंका, अवर सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2015

सं. 7/2015 ए-42011/59/2014-प्रशासन—राष्ट्रपति ने श्री पवन अग्रवाल, आईएएस (पश्चिम बंगाल : 1985) को 13 नवम्बर, 2014 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में वेतन बैंड 37,400—67,000/- रु. (वेतन बैंड-4) + 10,000/- रु. ग्रेड वेतन में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

आई. बी. लेंका, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 जनवरी 2015

सं. 03/2014 फा. सं. ए-32014/2/2013-प्रशासन—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.04.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/2/2013-सीएस. II (ए) द्वारा वर्ष 2013 के लिए प्रधान निजी सचिव ग्रेड की प्रवर सूची में नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने श्री मदन मोहन को 30.05.2014 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-3 (15,600—39,100/- रु.) + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव (क्रम सं. 60) के रूप में नियुक्त किया है।

एच. एम. कुण्डलिया, अवर सचिव

सं. 01/2015 फा. सं. ए-32014/2/2013-प्रशासन—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.12.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/4/2014-सीएस. II (ए) द्वारा वर्ष 2014 के लिए प्रधान निजी सचिव ग्रेड की प्रवर सूची में नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने श्री निशाकर पंडा को 31.12.2014 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-3 (15,600—39,100/- रु.) + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव (क्रम सं. 05) के रूप में नियुक्त किया है।

एच. एम. कुण्डलिया, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2015

सं. 26-01/2015-डीडी-III—मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 जनवरी, 2015 के का. ज्ञा. संख्या 33/03/2015-ईओ (एसएम-1) (11) के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री सी. के. खेतान, आईएस (सीजी : 1987) को केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत, 19 जनवरी, 2015 से उनकी पांच वर्ष की शेष अवधि हेतु अर्थात् 14 मार्च, 2017 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, 37,400—67,000/— रुपये के वेतन बैंड (पीबी-4) + 10,000/— रुपये के ग्रेड वेतन में ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास में पूर्व श्री अजय कुमार लाल, (आईआरएस, 1985) के स्थान पर, संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. पांडा, अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 मार्च 2015

सं. 14/29/एनसीएसटी/2013-प्रशा.—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 जनवरी, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2014-सीएस. I (U) के अनुसरण में माननीय राष्ट्रपति, वर्ष 2013 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I अर्थात् अवर सचिव की चयन सूची के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) से संबंधित श्री राजेश कुमार, अवर सचिव (तदर्थ), (सीएसएस सं. 8104) को इस आयोग में दिनांक 23.01.2015 से नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. डी. बन्सौर, निदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2015

सं. ईआरबी-1/2014/2/64—राष्ट्रपति जी, श्री एस. मनोहर, एचएजी/आईआरएसएसई, सलाहकार (सिगनल), रेलवे बोर्ड की ग्रेड रु. 75,500—80,000/— में पदोन्नति होने पर उन्हें 05.03.2015 के पूर्वाह्न से अपर सदस्य (सिगनल), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 12 मार्च 2015

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 28.02.2015 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :—

- | | | |
|-------|----------------------|-------------------|
| (i) | श्री आर. के. भटनागर, | सलाहकार/बिजली(जी) |
| (ii) | श्रीमती पी. माईती, | प्रमुख निजी सचिव |
| (iii) | श्री मोहिन्दर सिंह, | अनुभाग अधिकारी |

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

PLANNING COMMISSION

New Delhi, 1st January 2015

No. A-12025/09/2014-Adm.I—The President is pleased to appoint Dr. A. Manohar, a regular Deputy Adviser (Project Appraisal) and at present Joint Adviser (ad hoc), Planning Commission, as Joint Adviser (Labour & Employment) in Planning Commission in the Pay Band:4, Rs.37,400—67,000/- (+) Grade Pay of Rs.8,700/- on regular promotion basis w.e.f. 1st January, 2015 (FN).

S. MUKHERJEE, Director (Admn.1)

New Delhi, the 31st December 2014

No. F.6(2041)/2008-Adm.I—Ms. Renu Sobti, Joint Adviser (Ad hoc), Planning Commission voluntarily retires from Government service under the provision of FR-56(k)(1) w.e.f. 1st January, 2015 (FN).

G. RAJEEV, Under Secy.

No. F.6(2080)/2009-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Shri Chandan Kumar Saha, Joint Adviser (CI), Planning Commission retires from Government service w.e.f. 31.12.2014 (A.N.).

G. RAJEEV, Under Secy.

NITI AAYOG

New Delhi, 13th January 2015

No. F.6(2080)/2009-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Shri Chandan Saha, Joint Adviser (CI), Planning Commission (presently NITI Aayog) retired from Government service w.e.f. 31.12.2014 (A.N.). This supercedes the earlier Planning Commission Notification of even number dated 31st December, 2014.

S. MUKHERJEE, Director

The 22nd January 2015

No. A-12025/09/2014-Adm.I—The President is pleased to appoint Dr. A. Manohar, a regular Deputy Adviser (Project Appraisal) and at present Joint Adviser (ad hoc), NITI Aayog (erstwhile Planning Commission), as Joint Adviser (Labour & Employment) in NITI Aayog in the Pay Band:4, Rs.37,400—67,000/- (+) Grade Pay of Rs.8,700/- on regular promotion basis w.e.f. 1st January, 2015 (FN).

2. The earlier notification of even number dated 1.1.2015 issued in the name of Planning Commission stands cancelled.

S. MUKHERJEE, Director (Admn.1)

New Delhi-110001, the 19th January 2015

No. A-12025/12/2013-Adm.I—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 30th January, 2014 and 24th February, 2014, Shri M. Vijayakumar, officiating as Joint Adviser (VSI) on ad hoc basis, Dr. A.A. Sonkusare, officiating as Joint Adviser (Scientific Research) on ad hoc basis, and Shri Rajnath Ram, officiating as Joint Adviser (IEM) on ad hoc basis will stand reverted to their regular post of Deputy Adviser (Project Appraisal), Deputy Adviser (Energy Policy) and Deputy Adviser (Project Appraisal) with effect from w.e.f. 23.1.2015(FN), 27.1.2015(FN) and 17.2.2015(FN) respectively.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 21st January 2015

No. F.6[2246]/2015-Adm.I—Dr. Arvind Panagariya has assumed charge as Vice-Chairperson, NITI Aayog w.e.f. 13.01.2015 (F.N.).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 23rd January 2015

No.F.6[2247]/2015-Adm.I.—Dr. Bibek Debroy has assumed charge as a full-time Member, NITI Aayog w.e.f. 21.01.2015 (F.N.).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 29 th January 2015

No.F.6(2070)/2008-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Ms. Roohi Siddiqui, Deputy Adviser, NITI Aayog retires from Government service w.e.f. 31.01.2015 (A.N.).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 30th January 2015

No.A-12025/05/2013-Adm.I—In continuation of NITI Aayog (erstwhile Planning Commission)'s Notification of even number dated 29th August, 2013, Dr. R.P. Singh, officiating as Deputy Adviser (Education) on ad hoc basis and Shri R.C. Meena, officiating as Deputy Adviser (Social Planning) on ad hoc basis stands reverted to their regular posts of Senior Research Officer (Educational Planning) and Senior Research Officer (Project Appraisal) respectively with effect from w.e.f. 22.08.2014(AN).

G. RAJEEV, Under Secy.

No.F.6[2248]/2015-Adm.I.—Dr. V.K. Saraswat has assumed charge as a full-time Member, NITI Aayog w.e.f. 30.01.2015 (F.N.).

G. RAJEEV, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi -110001, the 17th March 2015

No.A-31018/1/2009-Ad.I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2012 for appointment to the Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service(CSS) on regular basis vide the Department of Personnel & Training's Office Memorandum No.5/6/2013-CS.I(U) dated 4th February 2015, the President is pleased to appoint Shri Naveen Kumar Dubay, Under Secretary(Ad hoc)(CSL No.8346) of the CSS to the Grade-I (Under Secretary) of USSL Year 2012 on regular basis w.e.f. 04.02.2015 in the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

SUNDER SINGH, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 16th March 2015

No. A-19/G-A/96—Shri Ashish Srivastava, IAS (MP:92) whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India vide the M/o Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training reference No. 14/1/2009-EO (MM- I) dated 13.03.2009 and No 14/3/2012-EO(SM-I) dated 01.08.2012, is hereby relieved from the post of Director General [Training] in the Secretariat of the Election Commission of India, on completion of his tenure, with effect from 18.03.2015 (A/N).

2. Further, Shri Ashish Srivastava is granted 61 days' Earned Leave w.e.f 19.03.2015 to 18.05.2015. He will report to his parent cadre after availing himself of the said leave.

B. C. PATRA, Under Secy.

The 17th March 2015

No. A-19/G-A/102—Shri Salek Chand, Library & Information Officer, whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India, vide National Institute of Health and Family Welfare reference No. A19011/4/97-Admn.I(Pt.), dated 02.03.2010, is hereby relieved from the post of Library and Information Officer in the Secretariat of the Election Commission of India, on completion of his tenure, with effect from 17.03.2015(A/N), to report to his parent office.

B. C. PATRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 3rd March 2015

No.A.38012/3/2014-Admn.I(L.D.)—Consequent upon her appointment to the post of Member of the Appellate Tribunal for Foreign Exchange, New Delhi, in the scale of Rs.67,000-79,000/- with effect from the forenoon of 20th February, 2015, Smt. Sharda Jain, Joint Secretary and Legislative Counsel deemed to have retired from Government service with effect from the forenoon of 20th February, 2015.

B.M. SHARMA, Deputy Secy.

No.A-32013/7/2014-Admn.I(L.D.)—On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri Udaya Kumara, Deputy Legislative Counsels (Grade III of Indian Legal Service) to the post of Additional Legislative Counsel (Grade II of the ILS) in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the forenoon of 3rd March, 2015 and until further orders.

2. The above mentioned officer will be on probation for a period of two years with effect from the date of his appointment to the post of Additional Legislative Counsel (Grade II of ILS) in this Department.

B.M. SHARMA, Deputy Secy.

The 4th March 2015

No.A-32013/8/2014-Admn.I(L.D.)—On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Smt. Akali V. Konghay, Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) to the posts of Deputy Legislative Counsel (Grade III of the ILS) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the forenoon of 4th March, 2015 and until further orders.

2. The above mentioned officer will be on probation for a period of two years with effect from the date of her appointment to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) in this Department.

B.M.SHARMA, Deputy Secy.

The 5th March 2015

No. A.12026/8/1995-Admn.I(LD)—In pursuance of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs Office Order No.5/3/2014-OL(Services) dated 24.02.2015 and consequent upon his promotion to the post of Joint Director (OL) in PB-3, Rs.15,600—39,100/- plus Rs.7,600/- Grade Pay on ad-hoc basis, Shri Kanwar Singh, Deputy Director (OL) in the Department of Personnel and Training has been taken on the strength of Legislative Department, Ministry of Law & Justice as Joint Director (OL) with effect from the forenoon of 3rd March, 2015 and until further orders.

B.M. SHARMA, Deputy Secy.

The 10th March 2015

No.A.12023/1/2003-Admn.I(L.D.)-Part—The President is pleased to appoint Shri B.N.S.V.S.K. Bangaraju, Superintendent (Legal) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Assistant Legislative Counsel (Grade- IV of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs.15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs.6,600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 10th March, 2015 or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on the above mentioned officer any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Assistant Legislative Counsel (Grade IV of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

B.M. SHARMA, Deputy Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 18th March 2015

No. I-18011/03/2015-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of AGMUT with effect from dates mentioned against their names:—

Sl No.	Name of the IPS Probationer	Date of confirmation
1.	Shri Deepak Gauri, IPS (AGMUT:2011)	29.08.2013
2.	Shri Deepak Yadav, IPS (AGMUT:2011)	29.08.2013
3.	Shri Ghanshyam Bansal, IPS (AGMUT:2011)	29.08.2013
4.	Shri Ingit Pratap Singh, IPS(AGMUT:2011)	29.08.2013
5.	Shri Pranav Tayal, IPS (AGMUT:2011)	19.12.2013
6.	Shri Sanjay Kumar Sain, IPS(AGMUT:2011)	19.12.2013
7.	Ms Urvija Goel, IPS(AGMUT:2011)	29.08.2013
8.	Ms Usha Rangnani, IPS (AGMUT:2011)	29.08.2013

DHEERAJ KUMAR SINGH, Section Officer (IPS-IV)

The 23rd March 2015

No. I-18011/03/2015-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of AGMUT with effect from dates mentioned against their names:—

Sl No.	Name of the IPS Probationer	Date of confirmation
1.	Ms Guguloth Amrutha, IPS (AGMUT:2011)	29.08.2014
2.	Shri Shankar Choudhary, IPS (AGMUT:2011)	21.11.2014
3.	Shri Parvinder Singh, IPS (AGMUT:2011)	27.07.2013
4.	Shri Manoj C., IPS (AGMUT:2011)	29.08.2014

DHEERAJ KUMAR SINGH, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 17th March 2015

No.A-32015/8/2006-Cadre(Ad.IV)—In terms of Department of Personnel and Training's O.M. No.6/7/2013-CS.I(S) dated 26th December, 2014, the President is pleased to appoint Shri Bimal Kumar Gupta as Section Officer (Group 'B' Gazetted) of Central Secretarial Service(CSS) in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions with effect from 02.03.2015(FN) on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2012 & 2013.

2. His appointment shall be subject to the outcome of the following Court Cases and also as per any other order by any competent court in any of the connected matters:—

- (i) WP(C) No.5080/2014 filed by UPSC V/s Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.
- (ii) WP(C) No.5793/2014 filed by UPSC V/s Shri M.R. Meena & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.
- (iii) WP(C) No.6468/2014 filed by UPSC V/s Shri Rajeev R & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.

D.K. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 13th March 2015

No.A-20012/1/2009-Ad.II—In pursuance of Cadre Administration Section's OM No. A-12025/2/2013-CAS dated 27.01.2015, Shri Ashutosh Misra, Assistant of CSS presently holding the post of Section Officer in Unique Identification Authority of India (UIDAI) on deputation basis, is granted proforma promotion to the Section Officer's grade of CSS w.e.f. 26.12.2014 (A.N.) i.e. the date of promotion of his junior in the grade of Section Officer for the Select List Year 2012 in the Pay Band of Rs 9,300—34,800/- (PB-2) + Rs 4,800/- (Grade Pay).

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

No.A-33025/1/2014-Ad.II/Pt—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Sharma, PPS of Department of Economic Affairs as Principal Private Secretary in the Expenditure Management Commission (EMC) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure on deputation basis, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 6,600/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of the 22nd January, 2015. His appointment will be co – terminus with the Commission or until further order, whichever is earlier.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi-110 107, the 27th February 2015

No.A-12023/2/2012-E.I—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Dr. Satish Chandra, Deputy Director(Official Language) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, as Deputy Director(Official Language) for the period from 09.02.2013 to 23.12.2013.

2. The above appointment has been ordered purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officer to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc.

L.K.SHARMA, Under Secy.

The 3rd March 2015

No.A-12023/2/2012-E.I—The President is pleased to appoint Shri Ishwer Singh, a regular Deputy Director of Official Language Service in the Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, as Joint Director (Official Language) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry on ad-hoc basis in the pay structure PB-3 (Rs.15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs.7,600/- for a period from 2-3-2015 to 1-3-2016 or until further orders whichever is the earliest.

2. The above appointment has been ordered purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officer to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 5th March 2015

No. A-12022/01/2012-E.I—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Aggarwal IAS, (UP:93) as Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, for a period of five years with effect from the forenoon of 4th March 2015 or until further orders, whichever is earlier.

L.K.SHARMA, Under Secy.

No.A-12023/07/2012-E.I—The President is pleased to appoint Shri D.S. Srinivasan, a regular Section officer of CSS (CSL No. 8652) as Under Secretary, on ad-hoc basis, in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry with effect from the forenoon of 20th February, 2015, for a period upto 31.05.2015 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade-I (Under Secretary) of CSS and is subject to the conditions laid down in the Department of Personnel & Training's Order No.5/3/2015 -CS.I (U) dated the 20th February, 2015.

L.K.SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 30th January 2015

No. A-12025/2/2011-SA—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Anoop Kumar Kanaujia to the post of Assistant Professor of Sugar Engineering, a General Central Service, Group 'A' Gazetted post, in the pay scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs.6,600/- on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 15.9.2014 (F/N) and until further orders. He will be on probation for a period of one year.

JITENDER JUYAL, Under Secy.

The 10th February 2015

No. A-12025/11/2013-SA—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Rakesh Shukla to the post of Senior Administrative Officer, a General Central Service, Group 'A' Gazetted, in the pay scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs.6,600/- on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 31.12.2014 (F/N) and until further orders. He will be on probation for a period of two years.

JITENDER JUYAL, Under Secy.

New Delhi, the 16th March 2015

No.TFC/4/2014—In pursuance of Department of Personnel and Training O.M. No.9/1/2014-EO(MM-II) dated 22nd January, 2015, the President of India is pleased to appoint Shri Ganesh A Bakade, ITS(1998) as Director(Admn. & Finance) in the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) under the Department of Food and Public Distribution w.e.f. forenoon of 3rd March, 2015 in the pay band of Rs.37,400—67,000/- (PB-4) plus grade pay of Rs.8,700/- for the period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

RAM CHANDRA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 22nd April 2014

No.17013/19/2013-IFS.II—In exercise of the provisions conferred by Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulations (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the following one (1) officer of the State Forest Service of Sikkim to the Indian Forest Service on the basis of inclusion of his name in the Select List for the year 2012 and to allocate him to Sikkim Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

Select List 2012

Name of the officer	Date of Birth
Shri Udai Gurung	14/03/1969

S.D.TIWARI, Under Secy.

The 12th May 2014

No.17013/10/2013-IFS-II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service of Assam Segment of Assam-Meghalaya Joint Cadre to Indian Forest Service for the Select List year 2012 containing the names of the following officer of the State Forest Service of Assam

towards filling up of promotion quota vacancies available in Assam Segment of Assam-Meghalaya Joint Cadre of Indian Forest Service:—

Select List - 2012

S. No.	Name of the officer	Date of Birth
1.	Mahesh Sh. Kalita	01/03/1958
2.	Md. Jorge Ahmed	09/08/1960
3.	Swapan Kr. Seal Sarma	01/03/1958
4.	Jatindra Sarma	11/08/1963
*5.	Md. Aftabuddin Ahmed	01/11/1958
6.	Amal Ch. Sarmah	01/11/1961
7.	Md. Solman Uddin Choudhary	24/12/1962

* The officer at Sl. No. 5 has been included in the Select List provisionally subject to clearance in disciplinary proceedings and grant of integrity certificate by the State Government.

S.D. TIWARI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 27th February 2015

No. A.38016/09/2014-Estt.III—On attaining the age of superannuation, Dr. (Smt.) Manisha Malhotra, Deputy Commissioner an officer of Central Health Services posted in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from Government Service w.e.f 28.2.2015 (AN).

A. K. Singh, Under Secy.

No. A.38016/11/2014-Estt.III—On attaining the age of superannuation, Sh. K.K. Bansal, Deputy Director an officer of Indian Statistical Services posted in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from Government Service w.e.f 28.2.2015 (AN).

A. K. Singh, Under Secy.

No. A.38016/10/2014-Estt.III—On attaining the age of superannuation, Dr. (Smt.) Sharda Verma, Director (CGHS) an officer of Central Health Services posted in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from Government Service w.e.f 28.2.2015 (AN).

A. K. Singh, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110001, the 5th June 2014

No. 02/2014. F.No.A-32014/2/2013-Admn—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Private Secretary Grade for the year 2012 (vide Deptt. of Personnel & Training's O.M. No.4/8/2013-CS.II(A) dated 26th May, 2014, the President is pleased to appoint Shri Kanwal Kumar Karwal as Private Secretary (SL No.07), on regular basis, in the Pay Band-2 (Rs.9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs.4,800/- (Granted MACP in the Grade Pay 5400 on 26th April, 2013) in the Ministry of Youth Affairs & Sports Cadre of Central Secretariat Stenographers' Service with effect from the forenoon of 26th May, 2014, until further orders.

I. B. LENKA, Under Secy.

The 19th January 2015

No.4/2015.PF/J/36-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Jai Prakash Singh, IPS (HP:2000), as Director in the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship in the Pay Band-4: of Rs.37,400—67,000/- + Rs.8,700/- Grade Pay with effect from the afternoon of 9th January, 2015, until further orders.

I. B. LENKA, Under Secy.

The 21st January 2015

No.3/2015.A.42011/59/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Agrawal, IAS (MT:1994), as Joint Secretary in the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship in the Pay Band of Rs.37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs.10,000/- with effect from the forenoon of 7th January, 2015, until further orders.

I. B. LENKA, Under Secy.

The 27th January 2015

No.02/2015. F.No. A-32014/2/2013-Admn.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officer Grade for the year 2012 and 2013 vide Deptt. of Personnel & Training's O.M. No.6/7/2013-CS.I(S) dated 26.12.2014, the President is pleased to appoint the following Section Officers on regular basis in the Pay Band-2 (Rs.9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs.4,800/- in the Ministry of Youth Affairs & Sports Cadre of CSS with effect from the dates mentioned against each, until further orders:—

Sl. No.	Name of the Section Officer	Rank/Select List year	Date of joining in this Ministry
1	Pankaj Dhamija	40/2012	30.12.2014
2	Naveen Rawat	28/2012	30.12.2014
3	Anita Sunil Kumar	277/2012	31.12.2014
4	Sudhir Kumar Gupta	81/2013	30.12.2014
5	Tarun Pareek	112/2013	31.12.2014

I. B. LENKA, Under Secy.

The 5th February 2015

No.05/2015-A.11013/2/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Kundan Kumar, IAS (BH-2004) as Private Secretary to the Minister of State (Independent Charge) for Skill Development & Entrepreneurship (Shri Rajiv Pratap Rudy) at the level of Deputy Secretary (in Pay Band PB-3 Rs.15,600—39,100/- + GP Rs.7,600/- Grade Pay) on co-terminus basis with the Minister with effect from 04.02.2015 (AN) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

I. B. LENKA, Under Secy.

The 12th February 2015

No.06/2015-A.12032/2/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. B.K. Ray, Under Secretary (CSL No.5461) of Central Secretariat Service (CSS), as Deputy Secretary of CSS, on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 2nd February, 2015, in the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship.

I. B. LENKA, Under Secy.

The 17th February 2015

No.7/2015.A.42011/59/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Pawan Kumar Agarwal, IAS (WB:1985), as Joint Secretary in the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship in the Pay Band of Rs.37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs.10,000/- with effect from the forenoon of 13th November, 2014, until further orders.

I. B. LENKA, Under Secy.

New Delhi—110001, the 13th January 2015

No.03/2014. F. No. A-32014/2/2013-Admn—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Principal Private Secretary Grade for the year 2013 (vide Deptt. of Personnel & Training's O. M. No.3/2/2013-CS.II(A) dated 30th April, 2014, the President is pleased to appoint Shri Madan Mohan as Principal Private Secretary (PPS) (SL No.60), on regular basis, in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs.6,600/- in the Ministry of Youth Affairs & Sports Cadre of Central Secretariat Stenographers' Service (CSSS) with effect from the forenoon of 30.5.2014, until further orders.

H. M. KUNDLIA, Under Secy.

No. 01/2015. F. No. A-32014/2/2013-Admn—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Principal Private Secretary Grade for the year 2014 (vide Deptt. of Personnel & Training's O.M. No.3/4/2014-CS.II(A) dated 26th December 2014, the President is pleased to appoint Shri Nishakar Panda as Principal Private Secretary(PPS) (SL No.05), on regular basis, in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs.6,600/- in the Ministry of Youth Affairs & Sports Cadre of Central Secretariat Stenographers' Service with effect from the forenoon of 31.12.2014, until further orders.

H. M. KUNDLIA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES)

New Delhi, the 28th January 2015

No.26-01/2015-DD-III:—In pursuance of Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's O.M.No. 33/03/2015-EO(SM-I)(11) dated 9th January 2015, the President is pleased to appoint Shri C.K. Khaitan, IAS (CG:1987) as Joint Secretary and Chief Executive Officer in National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities in the pay band of Rs.37,400—67,000/- (PB-4) plus grade pay of Rs.10,000/- for the balance period of his five year deputation under the Central Staffing Scheme, i.e. upto 14th March, 2017 with effect from 19th January, 2015 (AN) or until further orders, whichever is earlier vice Sh. Ajay Kumar Lal, IRAS, 1985.

D.K. PANDA, Under Secy.

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

New Delhi-110003, the 3rd March 2015

File No.14/29/NCST/2013-Admn—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/6/2014-CS .I(U) dated the 23rd January, 2015, the President is please to appoint Shri Rajesh Kumar, U.S.(Ad hoc), (CSL. No. 8104) in this Commission belonging to Central Secretariat Services (CSS) as Under Secretary on regular basis w.e.f. 23.01.2015 against the select list of Grade I of Central Secretariat Services (CSS), i.e. Under Secretary for the year 2013.

K. D. BHANSOR, Director

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 11th March 2015

No. ERB-I/2014/2/64—The President is pleased to appoint Shri S. Manohar, HAG/IRSSE, Adviser(Signal), Railway Board as Additional Member (Signal), Railway Board on promotion to grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from forenoon of 05.03.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board.

The 12th March 2015

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28.02.2015:—

- | | | |
|------|---------------------|------------------------------|
| i) | Shri R.K.Bhatnagar | Adviser/Electrical (G). |
| ii) | Smt. P.Maity | Principal Private Secretary. |
| iii) | Shri Mohinder Singh | Section Officer. |

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC. 2]—75 Copies.